



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 664]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 2012/पौष 6, 1934

No. 664]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2012/PAUSA 6, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 931(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का

1) की धारा 610ख के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) के खंडों (क) एवं (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम एवं प्ररूप, 1956 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम एवं प्ररूप (संशोधन) नियम, 2012 कहा जाएगा।

(2) ये नियम 25 दिसंबर, 2012 से प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 में संलग्नक-'क' में प्ररूप 18 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

| | |
|--|--|
| फॉर्म 18 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 146 के अनुसरण में) | पंजीकृत कार्यालय के स्थान या स्थान में परिवर्तन संबंधी नोटिस |
|--|--|

टिप्पणी - चिह्नित सभी स्थानों को अनिवार्य रूप से भरें।

1. यह फॉर्म ☐ नई कंपनी ☐ वर्तमान कंपनी हेतु है।
2. (क) फॉर्म 1क संदर्भ संख्या (फॉर्म 1क की सेवा अनुरोध संख्या(एसआरएन))
 या कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन).....
 (ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन)..... पहले से भरा हुआ
3. (क) कंपनी का नाम
 (ख) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता

 (ग) मौजूदा कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय (आरओसी) का नाम.....
 (घ) प्रपत्र का प्रयोजन ☐ शहर, कस्बे या गांव की स्थानीय सीमा के अंतर्गत परिवर्तन
☐ शहर, कस्बे या गांव की स्थानीय सीमा के बाहर परिवर्तन
☐ समान राज्य के अंतर्गत आरओसी के कार्यालय में परिवर्तन
☐ समान आरओसी कार्यालय के अंतर्गत राज्य में परिवर्तन
☐ मौजूदा आरओसी कार्यालय के बाहर राज्य में परिवर्तन
4. एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि
 (क) निम्नलिखित तिथि
☐.....(दिन/माह/वर्ष) से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता..... है।
☐ कंपनी के निगमन की तारीख है
- * पता पंक्ति I
 पंक्ति II
- * शहर
- * जिला
- * राज्य
- देश..... *पिन कोड.....
- *ई-मेल आईडी

(ख) पंजीकृत कार्यालय

○ कंपनी का स्वामित्व

○ कंपनी द्वारा लीज पर लिया गया

○ निदेशक का स्वामित्व (कंपनी द्वारा लीज पर नहीं लिया)

○ किसी अन्य एंटीटी/व्यक्ति का स्वामित्व (कंपनी द्वारा लीज पर नहीं लिया गया)

(ग) प्रस्तावित कंपनी रजिस्ट्रार या नए कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का नाम.....

(घ) उस पुलिस स्टेशन का पूरा पता जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अवस्थित है

नाम

* पता पंक्ति I

पंक्ति II

* शहर

* राज्य

* पिन कोड

5. (क) प्रपत्र 23 का एसआरएन

(ख) संबद्ध प्रपत्र का एसआरएन

(संबंधित प्रपत्र 1कघ, 21 का उल्लेख करें; यदि लागू हो)

6. (क) कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) या अन्य किसी सक्षम प्राधिकरण के आदेश की तिथि

(दिन/माह/वर्ष)

(ख) याचिका संख्या

संलग्नक

1. पंजीकृत कार्यालय के पते का प्रमाण

संलग्न करें

2. यदि पंजीकृत कार्यालय निदेशक के स्वामित्व में है तो निदेशक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (कंपनी द्वारा लीज पर नहीं लिया गया)

संलग्न करें

3. यदि किसी एंटीटी/व्यक्ति का स्वामित्व है (कंपनी द्वारा लीज पर नहीं लिया गया) कंपनी द्वारा पंजीकृत कार्यालय को अपने पते के रूप में उपयोग करने की अनुमति संबंधी प्रमाण

संलग्न करें

4. वैकल्पिक संलग्नक - यदि कोई हो।

संलग्न करें

संलग्नकों की सूची

संलग्नकों को हटाना

सत्यापन।

इस प्रपत्र में दी गई उपरोक्त सूचना एवं इसके संलग्नक मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है।

○ मुझे निदेशक मंडल की संकल्प संख्या तिथि (दिन/माह/वर्ष)

द्वारा इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

○ मुझे इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

○ कंपनी विहित अवधि के भीतर पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन हेतु कंपनी रजिस्ट्रार के पास फार्म-18 फाइल करने हेतु वचनबद्ध है।

कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव.....

*पदनाम

*निदेशक या प्रबंध निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या

प्रबंधक का आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन); या

सचिव की सदस्यता संख्या, अगर लागू हो या आयकर पैन

(किसी कंपनी का सचिव जो आईसीएसआई का सदस्य न हो, अपनी

आयकर पैन संख्या दे सकता है)

प्रमाण-पत्र

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उपरोक्त विवरण (संलग्नक सहित) को

.....

के रिकॉर्ड से सत्यापित कर लिया है और उन्हें सही एवं सत्य पाया है। आगे, मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि सभी अपेक्षित संलग्नक इस फॉर्म के साथ पूर्ण रूप में लगाए गए हैं।

○ मैं आगे यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैं स्वयं नए पते पर गया हूँ उसको सत्यापित किया है और यह पाया है कि परिसर प्रार्थी कंपनी का ही है।

○ चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्ण कालिक व्यावसायिक) या ○ लागत लेखाकार (पूर्ण कालिक व्यावसायिक) या ○ कंपनी सचिव (पूर्ण कालिक व्यावसायिक)

*क्या साझेदार या सदस्य ○ साझेदार ○ सदस्य

*पैक्टिस संख्या या सदस्यता संख्या का प्रमाण-पत्र

संशोधन

चेक फॉर्म

पूर्व संवीक्षा

प्रस्तुत

मात्र कार्यालय प्रयोग हेतु:

जमा करने संबंधी विवरण संलग्न करें

ई-फॉर्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)..... ई-फॉर्म जमा करने की तिथि..... (दिन/माह/वर्ष)

प्राधिकृत अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर

इस ई-फॉर्म को एतद्वारा पंजीकृत किया जाता है जमा करने की पुष्टि करें हस्ताक्षर की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

अथवा

यह ई-फॉर्म कंपनी पंजीयक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से रखे गए फाइल के आधार पर लिया गया है एवं फॉर्म भरते समय कंपनी द्वारा दिए गए शुद्धता विवरण पर आधारित है।

[फा. सं. 5/80/2012-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र के भाग-2 के खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. संख्या 432 तारीख 18 जनवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और भारत के राजपत्र में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए:-

| क्रम संख्या | अधिसूचना संख्या | अधिसूचना की तारीख |
|-------------|-----------------|-------------------|
| 1. | का.नि.आ. 2535 | 1.11.1956 |
| 2. | का.नि.आ. 3135 | 21.12.1956 |
| 3. | का.नि.आ. 237 | 19.1.1957 |
| 4. | का.नि.आ. 2105 | 29.1.1957 |
| 5. | का.नि.आ. 3038 | 28.9.1957 |
| 6. | का.नि.आ. 3867 | 7.12.1957 |
| 7. | सा.का.नि. 48 | 22.2.1958 |
| 8. | सा.का.नि. 723 | 23.8.1958 |
| 9. | सा.का.नि. 750 | 30.8.1958 |
| 10. | सा.का.नि. 1026 | 1.11.1958 |
| 11. | सा.का.नि. 14 | 3.1.1959 |
| 12. | सा.का.नि. 548 | 9.5.1959 |
| 13. | सा.का.नि. 1140 | 17.10.1959 |
| 14. | सा.का.नि. 1224 | 7.11.1959 |
| 15. | सा.का.नि. 1364 | 12.12.1959 |
| 16. | सा.का.नि. 220 | 27.2.1960 |
| 17. | सा.का.नि. 595 | 28.5.1960 |
| 18. | सा.का.नि. 195 | 18.2.1961 |
| 19. | सा.का.नि. 814 | 24.6.1961 |
| 20. | सा.का.नि. 1105 | 9.9.1961 |
| 21. | सा.का.नि. 1408 | 25.11.1961 |
| 22. | सा.का.नि. 653 | 12.5.1962 |

| | | |
|-----|-------------------|------------|
| 23. | सा.का.नि. 344 | 2.3.1963 |
| 24. | सा.का.नि. 628 | 13.4.1963 |
| 25. | सा.का.नि. 97 | 16.1.1965 |
| 26. | सा.का.नि. 822 | 12.6.1965 |
| 27. | सा.का.नि. 1570 | 30.10.1965 |
| 28. | सा.का.नि. 368 | 19.3.1966 |
| 29. | सा.का.नि. 421 | 18.3.1966 |
| 30. | सा.का.नि. 499 | 9.4.1966 |
| 31. | सा.का.नि. 743 | 21.5.1966 |
| 32. | सा.का.नि. 847 | 4.6.1966 |
| 33. | सा.का.नि. 1266 | 13.8.1966 |
| 34. | सा.का.नि. 130 | 20.1.1968 |
| 35. | सा.का.नि. 667 | 30.6.1973 |
| 36. | सा.का.नि. 327(अ) | 10.6.1975 |
| 37. | सा.का.नि. 414(अ) | 16.7.1975 |
| 38. | सा.का.नि. 2596 | 1.11.1975 |
| 39. | सा.का.नि. 2828 | 13.12.1975 |
| 40. | सा.का.नि. 154 | 31.1.1976 |
| 41. | सा.का.नि. 248(अ) | 24.3.1976 |
| 42. | सा.का.नि. 627 | 14.5.1977 |
| 43. | सा.का.नि. 24(अ) | 9.1.1979 |
| 44. | सा.का.नि. 1256 | 6.10.1979 |
| 45. | सा.का.नि. 555(अ) | 4.9.1982 |
| 46. | सा.का.नि. 479(अ) | 22.4.1988 |
| 47. | सा.का.नि. 694(अ) | 10.6.1988 |
| 48. | सा.का.नि. 782(अ) | 13.7.1988 |
| 49. | सा.का.नि. 908(अ) | 7.9.1988 |
| 50. | सा.का.नि. 1032(अ) | 26.10.1988 |
| 51. | सा.का.नि. 449 (अ) | 17.4.1989 |
| 52. | सा.का.नि. 510(अ) | 24.5.1990 |
| 53. | सा.का.नि. 795(अ) | 18.9.1990 |
| 54. | सा.का.नि. 289(अ) | 31.5.1991 |
| 55. | सा.का.नि. 614(अ) | 3.10.1991 |
| 56. | सा.का.नि. 754(अ) | 26.12.1991 |
| 57. | सा.का.नि. 312(अ) | 6.3.1992 |
| 58. | सा.का.नि. 353(अ) | 26.3.1992 |

| | | |
|-----|-------------------|-------------|
| 59. | सा.का.नि. 484(अ) | 11.5.1992 |
| 60. | सा.का.नि. 581 (अ) | 27.8.1993 |
| 61. | सा.का.नि. 621 (अ) | 24.9.1993 |
| 62. | सा.का.नि. 286(अ) | 1.3.1994 |
| 63. | सा.का.नि. 598(अ) | 28.7.1994 |
| 64. | सा.का.नि. 697(अ) | 20.9.1994 |
| 65. | सा.का.नि. 283(अ) | 21.3.1995 |
| 66. | सा.का.नि. 424(अ) | 26.5.1995 |
| 67. | सा.का.नि. 251(अ) | 21.6.1996 |
| 68. | सा.का.नि. 97(अ) | 28.2.1997 |
| 69. | सा.का.नि. 126(अ) | 1.3.1997 |
| 70. | सा.का.नि. 16(अ) | 6.1.1999 |
| 71. | सा.का.नि. 23(अ) | 12.1.1999 |
| 72. | सा.का.नि. 130(अ) | 23.2.1999 |
| 73. | सा.का.नि. 788(अ) | 29.11.1999 |
| 74. | सा.का.नि. 58(अ) | 17.1.2000 |
| 75. | सा.का.नि. 363 (अ) | 27.4.2000 |
| 76. | सा.का.नि. 638(अ) | 26.7.2000 |
| 77. | सा.का.नि. 836(अ) | 24.10.2000 |
| 78. | सा.का.नि. 24(अ) | 15.01.2001 |
| 79. | सा.का.नि. 35(अ) | 24.01.2001 |
| 80. | सा.का.नि. 51(अ) | 31.01.2001 |
| 81. | सा.का.नि. 96(अ) | 14.02.2001 |
| 82. | सा.का.नि. 330(अ) | 07.05.2002 |
| 83. | सा.का.नि. 5(अ) | 03.01.2003 |
| 84. | सा.का.नि. 479(अ) | 12.06.2003 |
| 85. | सा.का.नि. 580(अ) | 24.07.2003 |
| 86. | सा.का.नि. 56(अ) | 10-02-2006 |
| 87. | सा.का.नि. 555(अ) | 14-09-2006 |
| 88. | सा.का.नि. 399 (अ) | 30-05-2007 |
| 89. | सा.का.नि. 500(अ) | 24.07.2007 |
| 90. | सा.का.नि. 720(अ) | 16-11-2007 |
| 91. | सा.का.नि. 655(अ) | 12-09-2008 |
| 92. | सा.का.नि. 788(अ) | 14-11-2008 |
| 93. | सा.का.नि. 824(अ) | 28-11-2008 |
| 94. | सा.का.नि. 835(अ) | 04-12-2008 |
| 95. | सा.का.नि. 868(अ) | 22 -12-2008 |
| 96. | सा.का.नि. 872(अ) | 23-12-2008 |

| | | |
|------|------------------|------------|
| 97. | सा.का.नि. 876(अ) | 24-12-2008 |
| 98. | सा.का.नि. 183(अ) | 20.03.2009 |
| 99. | सा.का.नि. 257(अ) | 17.04.2009 |
| 100. | सा.का.नि. 284(अ) | 24.04.2009 |
| 101. | सा.का.नि. 643(अ) | 07-09-2010 |
| 102. | सा.का.नि. 649(अ) | 08-09-2010 |
| 103. | सा.का.नि. 78(अ) | 10-02-2011 |
| 104. | सा.का.नि. 259(अ) | 26-03-2011 |
| 105. | सा.का.नि. 351(अ) | 29-04-2011 |
| 106. | सा.का.नि. 407(अ) | 26-05-2011 |
| 107. | सा.का.नि. 408(अ) | 26-05-2011 |
| 108. | सा.का.नि. 514(अ) | 07-07-2011 |
| 109. | सा.का.नि. 533(अ) | 14-07-2011 |
| 110. | सा.का.नि. 618(अ) | 10-08-2011 |
| 111. | सा.का.नि. 716(अ) | 23-09-2011 |
| 112. | सा.का.नि. 749(अ) | 05-10-2011 |
| 113. | सा.का.नि. 313(अ) | 24-04-2012 |
| 114. | सा.का.नि. 411(अ) | 31-05-2012 |
| 115. | सा.का.नि. 548(अ) | 10-07-2012 |
| 116. | सा.का.नि. 577(अ) | 19-07-2012 |
| 117. | सा.का.नि. 588(अ) | 26-07-2012 |
| 118. | सा.का.नि. 705(अ) | 21-09-2012 |

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2012

G.S.R. 931(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642 read with section 610B of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, namely:—

- (1) These rules may be called the Companies (Central Government's) General Rules and Forms (Seventh Amendment) Rules, 2012.
- (2) They shall come into force **with effect from 25.12.2012.**
2. In the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, in Annexure 'A' for Form 18, the following Form shall be substituted, namely:—

FORM 18

[Pursuant to section 146 of the Companies Act, 1956]

Notice of situation or change of situation of registered office**Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.**1. This form is for ☐ New company ☐ Existing company

2.(a)*Form 1A reference number (Service request number (SRN) of Form 1A) or corporate identity number (CIN) of company

(b) Global location number (GLN) of company

3.(a) Name of the company

(b) Address of the registered office of the company

Pre-fill

(c) Name of office of existing Registrar of Companies(RoC)

(d) Purpose of the form

- ☐ Change within local limits of city, town or village
☐ Change outside local limits of city, town or village
☐ Change in office of RoC within same state
☐ Change in state within office of same RoC
☐ Change in state outside office of existing RoC

4. Notice is hereby given that

(a) The address of the registered office of the company with effect from

☐ (DD/MM/YYYY) is☐ The date of incorporation of the company is

*Address Line I

Line II

* City

* District

* State

Country

* Pin code

* e-mail ID

(b). * Registered Office is

- ☐ Owned by Company ☐ Owned by Director (Not taken on lease by company)
☐ Taken on Lease by company ☐ Owned by any other entity/ Person (Not taken on lease by company)

(c) * Name of office of proposed RoC or new RoC

(d) The full address of the police station under whose jurisdiction the registered office of the company is situated

* Name

* Address Line I

Line II

* City

* State

* Pin code

5.(a) SRN of Form23

(b) SRN of relevant form

(Mention the SRN of related Form 1AD, 21; if applicable)

47914/12-3

6.(a) Date of order of company law board (CLB) or any other competent authority

(DD/MM/YYYY)

(b) Petition number

Attachments

List of attachments

1. Proof of Registered Office address.

Attach

2. No Objection Certificate from director if registered office is owned by director (not taken on lease by company)

Attach

3. A proof that the Company is permitted to use the address as the registered office of the Company if the same is owned by any other entity/ Person (not taken on lease by company).

Attach

4. Optional attachment(s) - if any

Attach

Remove attachment

Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete.

☐ I have been authorised by the Board of directors' resolution number dated to sign and submit this form.

(DD/MM/YYYY)

☐ I am authorised to sign and submit this form.

* ☐ The company undertakes to file the Form 18 for change of registered office address with the RoC within prescribed period.

Managing director or director or manager or secretary of the company

* Designation

* Director identification number of the director or Managing Director; or Income-tax permanent account number (income-tax PAN) of the manager; or Membership number, if applicable or income-tax PAN of the secretary (secretary of a company who is not a member of ICSI, may quote his/ her income-tax PAN)

Certificate

* ☐ It is hereby certified that I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the records of

and found them to be true and correct. I further certify that all required attachment(s) have been completely attached to this form.

* ☐ I further certify that I have personally visited the new address, verified it and I am of the opinion that the premises are indeed at the disposal of the applicant company.

☐ Chartered accountant (in whole-time practice) or ☐ Cost accountant (in whole-time practice) or

☐ Company secretary (in whole-time practice)

* Whether associate or fellow

☐ Associate

☐ Fellow

* Membership number or certificate of practice number

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

For office use only:

Affix filing details

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date

(DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This e-Form is hereby registered

Confirm submission

Date of signing

(DD/MM/YYYY)

OR

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company.

[F. No. 5/80/2012-CL. V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 432(E) dated the 18th January, 1956 and subsequently amended *vide* the following notifications:—

| Serial Number | Notification Number | Notification Date |
|---------------|---------------------|-------------------|
| 1. | SRO 2535 | 1.11.1956 |
| 2. | SRO 3135 | 21.12.1956 |
| 3. | SRO 237 | 19.1.1957 |
| 4. | SRO 2105 | 29.1.1957 |
| 5. | SRO 3038 | 28.9.1957 |
| 6. | SRO 3867 | 7.12.1957 |
| 7. | GSR 48 | 22.2.1958 |
| 8. | GSR 723 | 23.8.1958 |
| 9. | GSR 750 | 30.8.1958 |
| 10. | GSR 1026 | 1.11.1958 |
| 11. | GSR 14 | 3.1.1959 |
| 12. | GSR 548 | 9.5.1959 |
| 13. | GSR 1140 | 17.10.1959 |
| 14. | GSR 1224 | 7.11.1959 |
| 15. | GSR 1364 | 12.12.1959 |
| 16. | GSR 220 | 27.2.1960 |
| 17. | GSR 595 | 28.5.1960 |
| 18. | GSR 195 | 18.2.1961 |
| 19. | GSR 814 | 24.6.1961 |
| 20. | GSR 1105 | 09.09.1961 |
| 21. | GSR 1408 | 25.11.1961 |
| 22. | GSR 653 | 12.05.1962 |
| 23. | GSR 344 | 02.03.1963 |
| 24. | GSR 628 | 13.4.1963 |
| 25. | GSR 97 | 16.1.1965 |
| 26. | GSR 822 | 12.6.1965 |
| 27. | GSR 1570 | 30.10.1965 |
| 28. | GSR 368 | 19.3.1966 |
| 29. | GSR 421 | 18.3.1966 |

47914812-4

| | | |
|-----|-------------|------------|
| 30. | GSR 499 | 9.4.1966 |
| 31. | GSR 743 | 21.5.1966 |
| 32. | GSR 847 | 4.6.1966 |
| 33. | GSR 1266 | 13.8.1966 |
| 34. | GSR 130 | 20.1.1968 |
| 35. | GSR 667 | 30.6.1973 |
| 36. | GSR 327(E) | 10.6.1975 |
| 37. | GSR 414(E) | 16.7.1975 |
| 38. | GSR 2596 | 1.11.1975 |
| 39. | GSR 2828 | 13.12.1975 |
| 40. | GSR 154 | 31.1.1976 |
| 41. | GSR 248(E) | 24.3.1976 |
| 42. | GSR 627 | 14.5.1977 |
| 43. | GSR 24(E) | 9.1.1979 |
| 44. | GSR 1256 | 6.10.1979 |
| 45. | GSR 555(E) | 4.9.1982 |
| 46. | GSR 479(E) | 22.4.1988 |
| 47. | GSR 694(E) | 10.6.1988 |
| 48. | GSR 782(E) | 13.7.1988 |
| 49. | GSR 908(E) | 7.9.1988 |
| 50. | GSR 1032(E) | 26.10.1988 |
| 51. | GSR 449 (E) | 17.4.1989 |
| 52. | GSR 510(E) | 24.5.1990 |
| 53. | GSR 795(E) | 18.9.1990 |
| 54. | GSR 289(E) | 31.5.1991 |
| 55. | GSR 614(E) | 3.10.1991 |
| 56. | GSR 754(E) | 26.12.1991 |
| 57. | GSR 312(E) | 6.3.1992 |
| 58. | GSR 353(E) | 26.3.1992 |
| 59. | GSR 484(E) | 11.5.1992 |
| 60. | GSR 581 (E) | 27.8.1993 |
| 61. | GSR 621 (E) | 24.9.1993 |
| 62. | GSR 286(E) | 1.3.1994 |
| 63. | GSR 598(E) | 28.7.1994 |
| 64. | GSR 697(E) | 20.9.1994 |
| 65. | GSR 283(E) | 21.3.1995 |
| 66. | GSR 424(E) | 26.5.1995 |
| 67. | GSR 251(E) | 21.6.1996 |
| 68. | GSR 97(E) | 28.2.1997 |
| 69. | GSR 126(E) | 1.3.1997 |

| | | |
|------|-------------|------------|
| 70. | GSR 16(E) | 6.1.1999 |
| 71. | GSR 23(E) | 12.1.1999 |
| 72. | GSR 130(E) | 23.2.1999 |
| 73. | GSR 788(E) | 29.11.1999 |
| 74. | GSR 58(E) | 17.1.2000 |
| 75. | GSR 363 (E) | 27.4.2000 |
| 76. | GSR 638(E) | 26.7.2000 |
| 77. | GSR 836(E) | 24.10.2000 |
| 78. | GSR 24(E) | 15.01.2001 |
| 79. | GSR 35(E) | 24.01.2001 |
| 80. | GSR 51(E) | 31.01.2001 |
| 81. | GSR 96(E) | 14.02.2001 |
| 82. | GSR 330(E) | 07.05.2002 |
| 83. | GSR 5(E) | 03.01.2003 |
| 84. | GSR 479(E) | 12.06.2003 |
| 85. | GSR 580(E) | 24.07.2003 |
| 86. | GSR 56(E) | 10-02-2006 |
| 87. | GSR 555(E) | 14-09-2006 |
| 88. | GSR 399 (E) | 30-05-2007 |
| 89. | GSR 500 (E) | 24-07-2007 |
| 90. | GSR 720(E) | 16-11-2007 |
| 91. | GSR 655(E) | 12-09-2008 |
| 92. | GSR 788(E) | 14-11-2008 |
| 93. | GSR 824(E) | 28-11-2008 |
| 94. | GSR 835(E) | 04-12-2008 |
| 95. | GSR 868(E) | 22-12-2008 |
| 96. | GSR 872(E) | 23-12-2008 |
| 97. | GSR 876(E) | 24-12-2008 |
| 98. | GSR 183(E) | 20-03-2009 |
| 99. | GSR 257(E) | 17-04-2009 |
| 100. | GSR 284(E) | 24-04-2009 |
| 101. | GSR 643(E) | 07-09-2010 |
| 102. | GSR 649(E) | 08-09-2010 |
| 103. | GSR 78 (E) | 10-02-2011 |
| 104. | GSR 259(E) | 26-03-2011 |
| 105. | GSR 351(E) | 29-04-2011 |
| 106. | GSR 407(E) | 26-05-2011 |
| 107. | GSR 408(E) | 26-05-2011 |
| 108. | GSR 514(E) | 07-07-2011 |
| 109. | GSR 533(E) | 14-07-2011 |

| | | |
|------|-------------|------------|
| 110. | GSR 618(E) | 10-08-2011 |
| 111. | GSR 716(E) | 23-09-2011 |
| 112. | GSR 749(E) | 05-10-2011 |
| 113. | GSR 313(E) | 24-04-2012 |
| 114. | GSR 411 (E) | 31-05-2012 |
| 115. | GSR 548 (E) | 10-07-2012 |
| 116. | GSR 577 (E) | 19-07-2012 |
| 117. | GSR 588 (E) | 26-07-2012 |
| 118. | GSR 705 (E) | 21-09-2012 |
